

प्रयागराज में बिक रहा नशे का नकली सामान: छापा मारकर जब्त किए 112 बोरी नकली भोला मुनक्का, मुख्य आरोपी फरार

प्रयागराज



प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में नकली आयुर्वेदिक दवा मुनक्का पकड़ा गया।

अब नशे के कारोबार में भी नक्काल घुस गए हैं। प्रयागराज में मुट्ठीगंज पुलिस, आबकारी विभाग और आयुर्वेदिक अधिकारियों की टीम ने गढ़ैया मोहल्ले में स्थित गोदाम में छापेमारी की तो हड़कंप मच गया। यहां 112 बोरी नकली भोला मुनक्का बरामद हुआ। यह गोदाम बीरगंज के रहने वाले अमित गुप्ता का बताया गया है। उनके खिलाफ नकली औषधि अधिनियम और फोर्जरी समेत अन्य आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी आरोपी अमित गुप्ता गिरफ्त में नहीं आया है।

असली भोला मुनक्का ब्रांड के मालिक ने की थी नकली बिकने की शिकायत

प्रयागराज शहर के धूमनगंज थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में सारस्वत फार्मसी सेंटर है। जहां पर भोला मुनक्का ब्रांड की आयुर्वेदिक औषधि बनती है। इस प्रोडक्ट के नाम पर कुछ लोग अवैध भोला मुनक्का का कारोबार कर रहे थे। इसकी शिकायत सारस्वत फार्मसी सेंटर के संचालक ने आयुर्वेदिक औषधि अधिकारी एवं आबकारी विभाग की टीम से की थी। मंगलवार को औषधि अधिकारी डॉ. शारदा प्रसाद, आबकारी इंस्पेक्टर सुभाष सिंह और मुट्ठीगंज इंस्पेक्टर इफ्तेखार अहमद खान की टीम ने संयुक्त रूप से मुट्ठीगंज के गढ़ैया मोहल्ले में स्थित एक गोदाम में छापा मारा तो हड़कंप मच गया। मौके से 112 बोरी अवैध भोला मुनक्का जब्त किया गया। पूछताछ में पता चला कि आयुर्वेदिक औषधि बिहार की राजधानी पटना से मंगाई जाती थी। मगर उस पर बैच और एलॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं होती थी। इसी आधार पर उसके नकली होने की पहचान की गई।

किराए पर गोदाम लेकर चलाता था अवैध कारोबार

पूछताछ में पता चला कि कीडगंज निवासी अमित गुप्ता का वह गोदाम है, जिसे वह किराए पर लेकर चलाता था। वह मिनरल वाटर समेत कई प्रोडक्ट का थोक सप्लायर है। हालांकि मौके पर अमित गुप्ता मिला नहीं वह फरार हो गया पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

युवाओं को नपुंसक बना रहा आयुर्वेदिक दवाओं का नशे के रूप में सेवन

यूपी के प्रयागराज में आजकल अफीम, स्मैक तथा नशे के तौर पर प्रयोग होने वाली एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाएं युवाओं को नपुंसक बना रही हैं। सस्ते में मिलने वाली यह दवा युवाओं समेत बेचने वालों के लिए फायदे का सौदा बन रही है। हालांकि इसके दूरगामी असर भयावह हैं। आयुर्वेदिक वैद्य जुगुल किशोर मिश्रा ने बताया कि भांग का लगातार सेवन करने वाले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा यौन शक्ति प्रभावित होती है। इससे जहां शरीर की कार्य क्षमता घटती है, वहीं याददाश्त खत्म होने समेत व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। हालांकि भांग का प्रयोग कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। हालांकि इसकी मात्रा चिकित्सक डिसाइड करता है।

40 पाउच का पैकेट 30 रुपये में मिलता है

भोला मुनक्का के नाम से 40 पाउचों के एक पैकेट 30 रुपये में बेचा जा है। इसे खरीद कर दुकानदार दो रुपये प्रति पाउच बेच रहे हैं। पांच ग्राम के इस पाउच में शुद्ध विजया भांग 25 प्रतिशत व मुनक्का 20 फीसदी समेत अन्य मिश्रण हैं। ऐसे में यह आयुर्वेदिक औषधि दवा कम नशे के रूप में ज्यादा प्रयोग हो रही है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/prayagraj/news/counterfeit-goods-are-being-sold-in-prayagraj-112-sacks-of-fake-innocent-raisins-seized-after-raiding-main-accused-absconding-128697683.html>